

WE ARE  
MACMILLAN.  
CANCER SUPPORT

‘मेरा पेट इतना  
फूल गया था कि मैं  
छः महीने के गर्भ  
वाली लगती थी।’

Julia



## गर्भाशय के कैंसर के लक्षण

हर वर्ष यूके में लगभग 7,100 महिलाओं को गर्भाशय का कैंसर होने का निदान होता है। गर्भाशय का कैंसर 50 साल से अधिक आयु की महिलाओं में अधिक देखा जाता है। यदि आपके दो या अधिक करीबी रिश्तेदारों (आपकी माता, बहनें या बेटियाँ) को गर्भाशय अथवा स्तन का कैंसर हुआ हो, तो संभवतः आपको यह होने का अधिक जोखिम है।

यदि आपको इन लक्षणों में से कोई भी तीन सप्ताह या अधिक समय से अधिकतर दिनों पर हुए हैं, तो अपने डॉक्टर से मिलें:

- फूला हुआ महसूस करना (फूला हुआ पेट)।
- पेट जल्दी भर जाना अथवा ज्यादा खाने की इच्छा न होना।
- आपके पेट के नीचे के हिस्से अथवा पीठ में दर्द।
- सामान्य से अधिक बार या अधिक जल्दी से पेशाब करना पड़ना।

इन लक्षणों वाली अधिकतर महिलाओं को गर्भाशय का कैंसर नहीं होता। परंतु इनकी जाँच कराना महत्वपूर्ण है क्योंकि शायद आपको कैंसर हो।

यदि आपको लक्षण हों तो डरें नहीं - उनकी जाँच कराएं।

गर्भाशय के कैंसर का पता जितनी जल्दी चलता है सफलतापूर्वक उपचार होना उतना ही संभव होता है।

अपने लक्षणों की जाँच करा कर आप अपने डॉक्टर का समय बर्बाद नहीं कर रही हैं।

यदि आपको सहायता की आवश्यकता है या किसी से बस बात करना चाहती हैं, तो मैकमिलन को निःशुल्क 0808 808 00 00 पर कॉल करें या यह साइट देखें [macmillan.org.uk](http://macmillan.org.uk)